

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 2003 (फाल्गुन 3 1924)
No. 8] NEW DELHI SATURDAY, FEBRUARY 22, 2003 (PHALGUNA 3, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2
[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 25 जनवरी 2003

सं० ए-36011/39/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, डा० जिले राम को 24 जनवरी, 2003 के अपराह्न से राष्ट्रपति सचिवालय के राष्ट्रपति उद्यान में अधीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० ए-34011/2/01-प्रशासन—राष्ट्रपति जी ने श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी को 06 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करने की कृपा की है।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2003

सं० आर०एस०/1275/स्था० (कार्मिक)—राज्य सभा में मुख्य संसदीय वृत्तलेखक, श्री वो० चिन्तामणि, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का अनुरोध स्वीकृत होने के परिणामस्वरूप 7 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

वनजा एन० सरणा, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 10 फरवरी 2003

सं० 3/1(1)/2003-I—राष्ट्रपति, श्री आर०वो० वेरुमाल परियोजना निदेशक, जो० सी० एल० वो०, व०एसएससी, तिरुवनंतपुरम को सेवाओं को 31-01-2003 से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2003

सं० ए-12022/1/2003-प्रशा०-III—राष्ट्रपति, योजना आयोग के सी०एस०एस०एस० संवर्ग की निजी सहायक, श्रीमती उमा बिष्ट को योजना आयोग में निजी सचिव के रूप में 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में दिनांक 08-01-2003 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर छह महीने लिए अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर सी०एस०एस०एस० संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में, उनकी सेवाओं की वरीयता के लिए न तो गिना जाएगा और न ही उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्र माना जाएगा।

जी० पी० ग्रोवर, उप सचिव

सं० ए-12022/1/2003-प्रशा० III—राष्ट्रपति, योजना आयोग के सी०एस०एस०एस० संवर्ग की निजी सहायक, श्रीमती नर्बदा मलिक को योजना आयोग में निजी सचिव के रूप में 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में दिनांक 7-1-2003 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर छह महीने के लिए अथवा नियमित पदधारा उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर सी०एस०एस०एस० संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में, उनकी सेवाओं की वरीयता के लिए न तो गिना जाएगा और न ही उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्र माना जाएगा।

जी० पी० ग्रोवर, उप सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० ए-11013/51/99-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्रीमती सुमन टाक, एक बाहरी व्यक्ति को चिकित्सा आधार पर उपयुक्त पाए जाने पर योजना राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के रूप में 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में अंतिम आधार पर दिनांक 01-01-2002 (पूर्वाह्न) से योजना राज्य मंत्री की इच्छा नुसार अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

जी० पी० ग्रोवर, उप सचिव

सं० ए-11013/51/99-प्रशा०-III—योजना राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) द्वारा कार्यभार त्याग देने के परिणामस्वरूप, श्री आर० मांझी, अवर सचिव, कृषि और

सहकारिता विभाग की, अपर निजी सचिव के रूप में उनकी सेवाएं, दिनांक 25-01-2003 (अपराह्न) से समाप्त की जाती हैं। उन्हें एक माह के लिए अर्थात् 28 फरवरी, 2003 (अपराह्न) तक समापन अवधि प्रदान की जाती है।

समापन अवधि की समाप्ति के पश्चात् श्री आर० मांझी, कृषि और सहकारिता विभाग को रिपोर्ट करेंगे।

जी० पी० ग्रोवर, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं० ए-11013/47/99-प्रशा०-III—राष्ट्रपति, योजना आयोग में उप सलाहकार के रूप में श्री प्रीतम सिंह को नियुक्ति के परिणामस्वरूप योजना आयोग में सदस्य (श्री सोमपाल) के सह-सलाहकारी पद से निजी सचिव की उनका नियुक्ति को 20 जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से समाप्त करते हैं।

एस० ए० रहीम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० ए-31013/3/2001-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों (जी सी एस) को कालम-4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित तारीख से वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	पदनाम	जिस तारीख से स्थाया आधार पर नियुक्त किए जाते हैं
श्री अमिताभ रे	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)	28-3-2001 (पूर्वाह्न)
श्री ए० मनोहर	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)	30-3-2002 (पूर्वाह्न)
डा० आर० पी० सिंह	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना)	7-6-2002 (पूर्वाह्न)

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2003

सं० ए-12022/2/2002-प्रशा०-5—इस आयोग की दिनांक 26 नवम्बर, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में इस आयोग के श्री ओ० पी० चावला को अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1-1-2003 से 30-6-2003 तक और छः माह के लिए अथवा नियमित पदधारी के कार्यभार संभालने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री ओ० पी० चावला को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित करने अथवा बरीयता के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० के-13012/3/2002-यू० एस०-II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री तरुण चैटर्जी को अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० के० 11019/4/2003-यू० एस० II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री तरुण चैटर्जी की 1 से 14 फरवरी, 2003 (दोनों दिन शामिल हैं) तक छुट्टी के कारण अनुपस्थिति के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री सत्यप्रकाश श्रवास्तव को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० गुट्ट
निदेशक (न्याय)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जनवरी 2003

सं० 14016/62/2001-यूटीएस-II-श्री श्रवण बागरिया को सिविल सेवा परीक्षा, 2000 के आधार पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा आबंधित होने पर संयुक्त सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय उन्हें दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली सिविल सेवा नियम, 1996 के नियम 10 के साथ पठित नियम 7 2) (क) के अन्तर्गत 9 अगस्त, 2002 के पूर्वाह्न से, 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर, 6500-10200 रुपए के वेतनमान में दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा के ग्रेड-II में नियुक्त करते हैं।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० 14031/1/2003-यू०टी०एस०-अरुणाचल प्रदेश गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1967 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकार श्री आर० पी० राय अधिवृषिता का आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जनवरी 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० I-14012/11/2001-आई० पी० एस०-IV-राष्ट्रपति श्री राज ब जैन, आई० पी० एस० (जम्मू व कश्मीर : 2000) का दिनांक 25-07-2001 से भारतीय पुलिस सेवा के त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

जे० बी० कौशिक, डेस्क अधिकारी

दिनांक 10 फरवरी 2003

सं० I-14012/13/2002-आईपीएस-IV-भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 के अधीन राष्ट्रपति, विभिन्न सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2001 में सफल रहने वाले निम्न-लिखित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में (परोवोआश्रित) नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	नियुक्त की तारीख
1	2	3
सर्वश्री		
1.	अभय सिंह	2-9-2002(पूर्वाह्न)
2.	अमितेन्द्र नाथ सिन्हा	2-9-2002(पूर्वाह्न)
3.	सुश्री अपर्णा एच० एस०	2-9-2002(पूर्वाह्न)
4.	सुश्री अर्चना सरीन	2-9-2002(पूर्वाह्न)
5.	आसिफ जलाल	2-9-2002(पूर्वाह्न)
6.	भरत लाल मीणा	2-9-2002(पूर्वाह्न)
7.	चिरुकोनू श्रीकांत	2-9-2002(पूर्वाह्न)
8.	दीपक चौधरी	2-9-2002(पूर्वाह्न)
9.	देवेन्द्र प्रकाश सिंह	2-9-2002(पूर्वाह्न)
10.	धरमवीर	2-9-2002(पूर्वाह्न)
11.	गजुलबर्जी स्पर्जन कुमार	2-9-2002(पूर्वाह्न)
12.	सुश्री मृणालिनी श्रवास्तव	2-9-2002(पूर्वाह्न)
13.	पाटिल अजीत भगवतराव	2-9-2002(पूर्वाह्न)
14.	राहुल शर्मा	2-9-2002(पूर्वाह्न)
15.	राजेश कुमार	2-9-2001(पूर्वाह्न)
16.	राकेश राठी	2-9-2002(पूर्वाह्न)

सं०	उम्मीदवार का नाम	नियुक्ति की तारीख
	गवर्धी	
17.	एम० प्रवीन कुमार	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
18.	संतोष कुमार	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
19.	सुश्रु अचो विल्डियाल	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
20.	सुश्रु सोनिया नारंग	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
21.	सुब्रामण्येश्वर राव ए०	2-9-2002 (पूर्वाह्न)
22.	उत्तम चन्द	02-09-2002 (पूर्वा०)
23.	सरतकार कपिलकुमार चिन्दुराव	03-09-2002 (पूर्वा०)
24.	साकेत कुमार सिंह	06-09-2002 (पूर्वा०)
25.	संजय कुमार जैन	23-12-2002 (पूर्वा०)
26.	सुश्री हषित अत्तालुरी	23-12-2002 (पूर्वा०)
27.	शिसवीरविन्द्र अनंत	-वही-
28.	जोस मोहन	-वही-
29.	सौरभ राव	-वही-
30.	रजत अग्रवाल	-वही-
31.	नरसिंह भोल	-वही-
32.	एन० कन्नन	-वही-
33.	राजेश कुमार यादव (रैंक सं० 245)	-वही-
34.	गजप्रिये सतीशकुमार ईश्वरदास	-वही-

2. इन उम्मीदवारों की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अनंतिम है तथा नियुक्ति पत्र में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अध्वधीन है।

जे० बी० कौशिश, डेस्क अधिकारी

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 2003

सं० ए-19011/1/2003-अ० रा० प०—राष्ट्रपति, श्री देवदास छोटाराय, भा० प्र० सं० (विहार : 71) को 3 फरवरी, 2003 (अपूर्वाह्न) ने अगले आदेशों तक, अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं वेतनमान में परामर्शी के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी० वी० राजप्पन, अवर सचिव

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2002

सं० फा० 2/27/2001-डोनर—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 12 अगस्त, 2002 के कार्यलय/ज्ञापन संख्या 4/13/2001—सी० एम०-1 और 1991, 92, 93 और 1994 के लिए प्रवर्ण सूची के अनुसरण में श्री टी० के० सुथन के० सं० से० ग्रेड 1 (अवर सचिव) की नियमित आधार पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख 17-5-1993 के स्थान पर 1-7-1992 से प्रभावी है।

पी० के० जैन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी, 2003

सं० 22012/44/2001-अ० भा० से०-1 (क)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (2) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ-लोक-सेवा-आयोग ने, चयन समिति द्वारा 13-12-2002 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा केरल संवर्ग में वर्ष 2000 के दौरान एक मौजूदा रिक्ति हेतु तैयार की गई केरल गैर-राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री के० एस० प्रेमचन्द्र कुरुप (जन्म तिथि 30-9-1948) के नाम वाली प्रवर्ण सूची को अनुमोदित कर दिया है।

यश ढींगरा, अवर सचिव

सं० 22012/44/2001-अ० भा० से०-1 (क)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (2) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 13-12-2002 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, केरल संवर्ग में वर्ष 2001 के दौरान एक मौजूदा रिक्ति हेतु तैयार की गई केरल गैर-राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री एन० अयप्पन (जन्म तिथि : 23-5-1948) के नाम वाली प्रवर्ण सूची को अनुमोदित कर दिया है।

यश ढींगरा, अवर सचिव

सं० 22012/44/2001-अ० भा० से०-1 (ख)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केरल गैर-राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्व श्री के० एस० प्रेमचन्द्र कुरुप तथा एन० अयप्पन को तत्काल प्रभाव से, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसार केरल संवर्ग आवंटित करते हैं।

यश ढींगरा, अवर सचिव

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2003

सं० ए-19013/13/2002-प्रशा-I (क)---सर्वग प्रशासन अनुभाग के दिनांक 8-7-2002 तथा 2-1-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० ए-32022/2/99-सी० ए० एस० के अनुक्रम में राष्ट्रपति, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री विजय कुमार की तदर्थ प्रोन्नति को 30-6-2003 तक अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री विजय कुमार की तदर्थ प्रोन्नति से उनको इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने का अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरिष्ठता के दावे के लिए कोई हक प्राप्त नहीं होगा।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए-32014/1/2002-प्रशा०-1 (क)---कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-12-2002 के का०ज्ञा० सं० 5/5/2001-सी० एस० II के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर 2002 से वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय, राजस्व विभाग में 10000-325-15200/- रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम
	सर्व श्री/सुश्री
1.	बी० एस० कौशिक
2.	सुनीता सक्सेना
3.	प्रीतम जन्द
4.	पी० एन० बजाज
5.	जयश्री शिवरामन
6.	ओ० पी० चौहान
7.	जानकी बेंकटेश्वरन

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव के ग्रेड में ऊपर उल्लिखित अधिकारियों का वरिष्ठता का क्रम निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के लिए नियुक्ति की वास्तविक तारीखों का ध्यान किए बिना कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-12-2002 के

कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न सूची में दिखाए गए क्रमादेश के अनुसार होगा।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० 7: (फा० सं० ए०—19014/1/2003-प्रशा० 1)---राष्ट्रपति, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली के अधिकारी श्री राजू पी० अमलानी को 23-1-2003 (अपराह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी समन्वय) नियुक्त करते हैं।

प्रति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 2003

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 01/2003—ए-38012/7/2002/प्रशा०-2---राष्ट्रपति जी, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, समूह 'क' से श्री के० एस० वेंकटगिरी, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सलेम की दिनांक 14-12-2002 (अपराह्न) से स्वच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2002

सं० 1/10/2000-करेंसी-III---राष्ट्रपति, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में उप-मुख्य अभियन्ता श्री एन० जे० सन्नी, जो इस समय इसी संवर्ग में 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर मुख्य अभियन्ता (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में कार्यरत हैं, को भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियमित आधार पर मुख्य अभियन्ता के रूप में नियुक्त करते हैं।

डा० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

सं० 1/11/2001-करेंसी-II---राष्ट्रपति, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग के दोनों उप-कारखाना प्रबंधकों सर्वश्री एस० के० घोष तथा एम० सी० बैलप्पा, जो इस समय इसी संवर्ग में 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में कारखाना प्रबंधक (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं, को दिनांक 1 अगस्त, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में कारखाना प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप सचिव

एफ सं० 1/13/2001-करेंसी-II--राष्ट्रपति, सर्वश्री एम० राधाकृष्णन, पं० एस० उगाडे, मनीष शंकर, वी० वी० देशपांडे और सी० आर० कार्णिक, सभी को, जो भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में सहायक कारखाना प्रबंधक हैं और इस समय इसी संवर्ग में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में उप-कारखाना प्रबंधक (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं, दिनांक 16 अगस्त 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में उप-कारखाना प्रबंधक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

डा० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप-सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर 2002

सं० 1/9/99-करेंसी-II--राष्ट्रपति, भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग और इस समय 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में सहायक कारखाना प्रबंधक (समूह 'क' राजपत्रित) के रूप में इस संवर्ग में तदर्थ आधार पर कार्यरत निम्नलिखित पर्यवेक्षकों को भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय/करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड के संयुक्त संवर्ग में नियमित आधार पर सहायक कारखाना प्रबंधक के रूप में दिनांक 18 अक्तूबर, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं:—

1. श्री एस० जी० बडें
2. श्री एस० एम० पंडित
3. श्री ए० के० श्रीवास्तव
4. श्री वी० जी० मारु (अ०जा०)
5. श्री आर० वी० शिर्वाडकर
6. श्री वी० टी० कुकरेजा
7. श्री जे० के० जैन

डा० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं० ए-19011/13/2002-प्रशा०-2--राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में अनुभाग अधिकारी सुश्री श्रेयसी चौधरी को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय में दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 22 फरवरी 2003

सं० ए-12011/2/2002-प्रशा०-2--राष्ट्रपति, श्री आर० पी० त्रिह, आई आर एन (आई टी : 92) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय में दिनांक 22 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप-सचिव नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2003

सं० 4/12/2002-करेंसी-II (वोएनपी)--राष्ट्रपति, श्री के० के० गर्ग, सहायक इंजीनियर (सिविल) को, बैंक नोट प्रेस, देवास में दिनांक 01-01-2003 (पूर्वाह्न) से 8000-15000/- रुपये (संशोधित) के वेतनमान में इंजीनियर (सिविल) के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर०के० मागो, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० 2/10/1998-सिक्का-I--राष्ट्रपति, भारत सरकार टकसाल, नोएडा में कारखाना प्रबंधक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और भारत सरकार टकसाल, मुंबई में कारखाना प्रबंधक श्री सी० कल्याण राम को दिनांक 4-2-2003 के (पूर्वाह्न) से 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में क्रमशः भारत सरकार टकसाल, नोएडा और मुंबई में वरिष्ठ कारखाना प्रबंधक के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

एफ० सं० 2/13/2001-सिक्का-1--राष्ट्रपति, भारत सरकार टकसाल, नोएडा में चयन ग्रेड इंजीनियर/मैल्टर श्री डी० के० दिलीप को भारत सरकार टकसाल, नोएडा में दिनांक 31-1-2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में भारत सरकार टकसाल नोएडा के सहायक कार्यशाला प्रबंधक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० ए-22013/1/2001-संवर्ग—कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09-12-2002 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/7/2002 ई०ओ०(एम०एम०-1) द्वारा यथा संप्रेषित, अवर सचिव स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की आवर्तन नीति (रोटेशन पॉलिसी) के अनुपालन में विधि कार्य विभाग में अवर सचिव श्री वी० सिंह ने 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० दास, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० ए-19011/5/2001-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के वरिष्ठ मुख्य निजी सचिव के रूप में श्री चन्द्र गुप्त का तदर्थ नियुक्ति को 12000-16500 रुपए के वेतनमान में 30-6-2003 तक अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर आगे बढ़ाते हैं। यह नियुक्ति कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 के का० ज्ञा० सं० 20/27/98-सीएस-2(खंड-2) के संदर्भ में है।

2. श्री चन्द्र गुप्त की नियुक्ति केवल तदर्थ आधार पर का जा रहा है और यह तदर्थ नियुक्ति नियुक्त व्यक्ति को नियमित नियुक्ति अथवा सःएसएस के वरिष्ठ पापोएस ग्रेड में वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

एस० एस० केमवाल, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2003

सं० ए-19011/13/97-प्रशा०—राष्ट्रपति, भारी उद्योग विभाग में निदेशक श्री वी० के० त्रिपाठी, आई० ए० एस० (आखण्ड : 83) के कार्यकाल की अवधि को 07-01-2003 से 07-02-2003 तक या आगामी आदेशों तक एक महीने के लिए बढ़ाते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० ए-12026/1/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के संवर्ग में अवर सचिव (इन्निटू) के पद पर कार्यरत श्री वी० के० वधावन को भारी उद्योग विभाग में 3 जनवरी, 2003 से आगामी आदेशों तक अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए-19011/1/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री ए० दोदर सिंह, आई० ए० एस० (पंजाब : 76) को 15-01-2003 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष का अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो 18400-22400 रुपये के वेतनमान में भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

के० के० शर्मा, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० ए-18011/12/2003-स्था०—राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव (श्रेणः क एवं ख आमेलित) श्री जगजीत सिंह जो वर्तमान में लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में कार्यरत है, को अधिवृत्ति को आयु प्राप्त कर लेने पर 31-1-2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० ए-11011/1/2001-स्था-1—राष्ट्रपति, श्री जे० पी० वल्लूनी को 13 दिसम्बर, 2002 से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 24 जनवरी 2003

सं. ए-12023/02/98-प्रशां-1(ए)—सालिसिटर जनरल का कार्यालय, विधि कार्य विभाग से 3-11-2002 के पूर्वाह्न से विधि कार्य अधिकारी के पद से कार्यमुक्त होने तथा विधि कार्य विभाग द्वारा संस्कोरित 31-12-2002 तक अर्जित अवकाश के समाप्त होने के परिणामस्वरूप, श्री आर. मणि, प्रधान निजी सचिव (स्व-स्थाने) ने 1-1-2003 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा उन्हें 1-1-2003 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय मन्त्रिवालय आणुलिपिक सेवा संवर्ग में ले लिया गया है।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2003

सं. ए-32013/02/2001-प्रशां 1 (ए)—इस विभाग की दिनांक 14-11-2002 को समसंख्यक अधिसूचना के अनु-क्रम में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित कनिष्ठ विश्लेषकों की 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक "बी" के पद पर 14-12-2001 से 13-06-2003 तक और छह मास को अवधि के लिए अथवा नियमित पदधरी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष अवधि बढ़ाते हैं :—

(i) श्री ए० एन० सिंह

(ii) श्री राजीव खन्ना

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2003

फा० सं०-17013/10/2002-भा० व० सेवा II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 22 जनवरी, 2003 को एक चयन सूची का अनुमोदन किया है जिसमें वर्ष 2001 एवं 2002 के लिए मध्य प्रदेश के राज्य वन सेवा अधिकारी के निम्नलिखित बीस सदस्यों के नाम शामिल हैं। यह चयन सूची 1 जनवरी, 2001 एवं 1 जनवरी, 2002 को भारतीय वन सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में पदोन्नति रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से 12 एवं 13 दिसम्बर, 2002 को हुई चयन समिति की बैठक में तैयार की गई थी :—

क्र० सं०	नाम	जन्मतिथि
1	2	3
चयन सूची, 2001 :		
सर्वश्री		
1.	ए० के० भुगोनकर (अ० ज० जाति)	17-09-1956
2.	बी० के० नीमा	01-07-1958
3.	ए० के० नागर	15-12-1958

1	2	3
सर्वश्री		
4.	एम० के० पाठक	06-03-1959
5.	संत कुमार शर्मा	15-06-1955
6.	एम० सी० सिवल	01-03-1957
7.	आर० पी० एस० बघेल	25-07-1958
8.	उधम सिंह कौर (अ० ज० जाति)	01-04-1952
9.	एन० कुरंशी	01-06-1955
10.	एल० पी० तिवारी	27-11-1954
11.	बी० एस० लिट	08-04-1948

चयन सूची 2002 :

1.	राघवेंद्र कुमार श्रीवास्तव	9-3-1959
2.	अशोक कुमार जोशी	1-3-1960
3.	अतुल खेरा	30-4-1960
4.	कल्लू सिंह अलवा (अ० ज० जाति)	1-1-1958
5.	सरपत सिंह रावत (अ० ज० जाति)	30-8-1960
6.	तरुण शेखर चतुर्वेदी	21-7-1958
7.	ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	7-1-1949
8.	डी० के० अग्रवाल	9-5-1958
9.	ए० एस० तिवारी	9-12-1959

जी० देवनानी अवर सचिव

दिनांक 27 जनवरी 2003

फ ईल सं० 17013/03/97-भा० व० सेवा II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य वन सेवा के श्री टी० एन० वर्मा को वर्ष 1996-97 का चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का बिहार संवर्ग आवंटित करते हैं।

जी० देवनानी, अवर सचिव

नई दिल्ली-3 दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० ए-32012/3/2002 पो-1 (.)—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित अनुसंधान अधिकारियों (वेतनमान 6500-10500/-रु०) को 20-11-2002 (पूर्वाह्न) से 8000-13,500 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक "बी" के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है :—

(1) डा० पी० एस० रावत

(2) श्री ओमप्रकाश

पी० मोहनदासन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2003

सं० 24012/1/99-सा० व० सेवा-II—राष्ट्रपति, राजस्थान
संवर्ष के 1987 बैच के राज्य बन सेवा अधिकारी श्री एन०
उदय शेखर के सेवा से त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत
करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 2003

सं० ए० 12034/2/2003-सा० एच० एस०-III—राष्ट्रपति,
खेसपुरा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी
डा० शशि भारद्वाज, जो मौलाता आजाद मेडिकल कॉलेज, नई
दिल्ली में प्रोफेसर शरीर रचना विज्ञान का पद धारण किए
हुए हैं, के दिनांक 29-11-2002 को हुए मिशन की घोषणा
करते हैं।

श्रीमती पेरौन देवी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5-2-2003

सं० ए०-39012/21/95-सा० एच० एस०-I—डा० (श्रीमती)
हरप्रीत कौर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपने त्यागपत्र के
स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 3-9-2001 के पूर्वाह्न
को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय
स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्य-
भार छोड़ दिया समझा जाता है।

2. 1-11-90 से 3-9-2001 (पूर्वाह्न) तक की अवधि
को अकार्य दिवस के रूप में माना गया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/159/96-सा० एच० एस०-I—राष्ट्रपति,
संघ लोक सेवा आयोग के सिफारिशों पर डा० अंशुमन कुमार
को 30-6-1997 के पूर्वाह्न से आध्यात्मिक आदेशों तक केन्द्रीय
स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-255-
13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर
नियुक्त करते हैं। डा० अंशुमन कुमार को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर
तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 39012/2/2001-सा० एच० एस०-I—डा०
आर० के० पन्था ने अपना इस्तीफा मंजूर होने के परिणाम
स्वरूप 5-12-2001 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ
चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है, ऐसा
माना जाता है।

2. दिनांक 3-9-1997 से 5-12-2001 (पूर्वाह्न)
की अवधि अकार्य-दिवसों के रूप में माना गई है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2003

सं० ए०-32012/2/2002-सा० एच० एस०-I—मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपना प्रोन्नति के परिणामस्वरूप निम्न-
लिखित अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने दो मई तारख को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार
छोड़ दिया और अपने-अपने नामों के आगे दिए गए संसद के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल
लिये हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	संगठन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	डा० श्याम सुन्दर	भारत सरकार मंत्रालय, नई दिल्ली	5-6-99 (पूर्वाह्न)	5-6-99 (पूर्वाह्न)
2.	डा० (श्रीमती) प्रवीण बाला	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	9-8-01 (पूर्वाह्न)	9-8-01 (पूर्वाह्न)
3.	डा० (सुश्री) पद्मावती शर्मा	"	21-10-01 (अपराह्न)	22-10-01 (पूर्वाह्न)
4.	डा० (श्रीमती) मोनिका राणा	"	8-8-01 (अपराह्न)	9-8-01 (पूर्वाह्न)
5.	डा० (श्रीमती) लीना मिश्रा	"	11-7-01 (पूर्वाह्न)	11-7-01 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	5
6.	डा० (श्रीमती) विशाखासाहरे विवाह पूर्व सिद्धी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	4-9-01 (पूर्वाह्न)	4-9-01 (पूर्वाह्न)
7.	डा० (श्रीमती) संतोषा राणी	"	11-7-01 (पूर्वाह्न)	11-7-01 (पूर्वाह्न)
8.	डा० बबिता मिसल	"	9-8-01 (पूर्वाह्न)	9-8-01 (पूर्वाह्न)
9.	डा० परमिंदर कौर	"	4-9-01 (पूर्वाह्न)	4-9-01 (पूर्वाह्न)
10.	डा० अल्का अग्रवाल	"	9-8-01 (पूर्वाह्न)	9-8-01 (पूर्वाह्न)
11.	डा० कमलजीत सिंह बंसल	"	4-8-97 (पूर्वाह्न)	4-8-97 (पूर्वाह्न)

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2003

सं० 12022/6/96-स्था-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय
अशुलिपिक सेवा (निजी सचिव), जोकि कृषि एवं सहकारिता
का अतिरिक्त है, के निम्नलिखित ग्रेड 'ए' और 'बी'
(समावेष्टित) अधिकारियों को 10-12-2002 (पूर्वाह्न) से
नियमित आधार पर प्रथम निजी सचिव के पद पर नियुक्त
करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	चयन सूची का वर्ष	इस ग्रेड में वरिष्ठता क्रम
1.	श्रीमती अल्पना दास गुप्ता	1998	20
2.	श्री के० मोहनन	1998	25
3.	श्री सोहन स्वर्ण	1998	42
4.	श्री जे० एन० वनातो	1998	48

के० डी० उम्रेतो, अवर सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2003

सं० 27-2511/2003-स्था०-I—राष्ट्रपति, श्री सुदीप
कुमार बेनर्जी, भा० प्र० से० (म० प्र० : 71) को दिनांक
14 जनवरी 2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक
22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में कृषि
मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में अवर सचिव के
रूप में नियुक्त करते हैं।

के० डी० उम्रेतो, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० 38012/5/2002-स्था०-1—राष्ट्रपति, कृषि एवं
सहकारिता विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री सुभाष
चन्द्र को उनकी अतिरिक्ता आयु पूरी हो जाने पर 31 जनवरी
2003 के अग्रपक्ष से सरकार की सेवा से निवृत्ति प्रदान
करते हैं।

के० डी० उम्रेतो, अवर सचिव

(पशु-पालन एवं डेयरी विभाग)

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान

कोच्चिन-682016, दिनांक 7 फरवरी 2003

पी० एफ० सं० 539/प्रशा०—अधोहस्ताक्षरी को श्री के०
विश्वनाथन को हिन्दी अधिकारी "ग्रुप बी" राजपत्रित के पद
पर केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में
रु० 6500-200-10500/- के वेतनमान पर दिनांक 31
जनवरी 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करने में
प्रसन्नता है।

जी० एच० मनिक्कान, निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2003

सं० ए-32011/4/2001-स्था०-I—सचिव, माध्यमिक
और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) में कार्यरत श्री बी०
एस० बहल, नियमित सांख्यिकी विश्लेषक ग्रेड-I को 30
दिसम्बर 2002 से अगले आदेशों तक 6500-200-10500/-
रु० के वेतनमान में सहायक शिक्षा अधिकारी (सांख्यिकी) के
रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एम० सही, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2003

सं० ए 32011/11/98-स्था० I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के का०जा० सं० 5/5/2001-सी० एस०-II दिनांक
10-12-2002 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री बी० के० शर्मा
को महिला एवं बाल विकास विभाग में 10-12-2002 को
पूर्वाह्न से 10000-15200 रुपये के वेतनमान में नियमित
आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी० एम० सद्को, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 2003

सं० ए-12026/2/95-स्था०-विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के परिणामस्वरूप राजभाषा विभाग ने श्री पी०डी० भारद्वाज, उम निदेशक (राजभाषा) को इस मंत्रालय में अपने दिनांक 8 जनवरी, 2003 के कार्यालय आदेश सं० 5/12/2001-ओ एन (एन) के तहत तत्काल प्रभाव से पदोन्नति का नियुक्त किया जाता है।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2003

सं० ए-32014/1/99-स्था० I-राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्वयं सहायकों को संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाई अर्थात् तत्काल प्रभाव से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं—

- (क) श्री बी० के० मिश्रा, दिनांक 12-3-2000 से 26-7-2000 तक
- (ख) श्री वाई० एस० यादव, दिनांक 13-5-2000 से 28-9-2000 तक
- (ग) श्री ए० के० दास, दिनांक 31-3-2001 से 2-5-2001 तक।

2. यह तदर्थ स्थापनापन्नता उनको अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियमित नियुक्ति या उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार या दावा प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

सं० ए-32014/1/99-स्था० I-राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के प्रत्येक के सामने दो गई अर्थात् निम्नलिखित/चयन सूची अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले ही, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं—

- (क) श्री एस० रवि कुमार, दिनांक 2-6-2000 से 29-11-2002 तक
- (ख) श्री बी० के० मिश्रा, दिनांक 27-7-2000 से 31-3-2003 तक
- (ग) श्री वाई० एस० यादव, दिनांक 29-9-2000 से 31-3-2003 तक
- (घ) श्री ए० के० दास, दिनांक 3-5-2001 से 14-7-2002 तक

2. यह तदर्थ स्थापनापन्नता उनको अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियमित नियुक्ति या उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार या दावा प्रदान नहीं करेगी।

3. यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा का०जा० सं० 5/18/2002-सी एस-1 दिनांक 3-1-2003 के तहत इन अधिकारियों की तदर्थ स्थापनापन्नता की कार्योत्तर मंजूरी के अनुसार है।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2003

सं० 17016/5/2002-एस सो डा-6-राष्ट्रपति, श्री बाबू लाल, सी० एस० एस० को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में निदेशक के रूप में दिनांक 16-1-2003 (अपराह्न) से दिनांक 31-5-2005 तक की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

दिलीप सिंह, निदेशक

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

सं० पोएफ-2415-प्रशा० I-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री ए० के० जर्मा, निजी सचिव, दूरसंचार विभाग 31 दिसम्बर, 2002 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मनमोहन सिंह, अवर सचिव (प्रशा०)

सं० पोएफ-2678-प्रशा० I-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री आर०सी० सिकरी, निजी सचिव (माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के प्रथम निजी सहायक), दूरसंचार विभाग, 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मनमोहन सिंह, अवर सचिव

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2003

सं० 1-32/2002-एसपीजी-I-श्री ए०एस०आई०एस०-पॉल (भारतीय डाक सेवा-1966), सदस्य (कार्मिक) सेवा नियुक्ति की आयु प्राप्त होने पर 31-01-2003 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक
(एस० जी० पी०)

सं० 1-20/2002-एसपीजी—श्री टी० आर० शर्मा (भारतीय डाक सेवा-1967), सदस्य (आई एंड एफ एस) सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर 31-01-2003 को अपराह्न में सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आर० एस० यादव
सहायक महानिदेशक (एस० जी० पी०)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 फरवरी 2003

सं० 03-4/99-प्रशा०—वर्ष 1999 की चयन सूची के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड “क” एवं “ख” (विलयित) की चयन सूची में प्रौद्योगिक नौति एवं संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की नियमित आशुलिपिक ग्रेड “ग” श्रोमती सधुरबाणी औधवासी का नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निजी सचिव के बतौर 6500-200-10500/-र० के वेतनमान में नियमित आधार पर 31-1-2003 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी० पी० पिल्ले, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 5 फरवरी 2003

सं० 02-2/2000-प्रशा०—अनुभाग अधिकारी ग्रेड, वर्ष 2000 (वरिष्ठता कोटा) की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप विधिक कार्य विभाग के संवर्ग में नियमित सहायक के पद पर कार्य कर रहे श्री ए० के० वीष को राष्ट्रपति दिनांक 3-2-2003 से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर 6500-200-10500/-र० के वेतनमान में, डाक विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में बतौर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

जी० पी० पिल्ले
सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० ए-32014/1/96-स्था-1—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय के संवर्ग के स्थायी सहायक श्री महा सिंह को दिनांक 31-1-2003 (अ) से छः मास की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे श्री महा सिंह को वरिष्ठता अथवा नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एन० सं० कौशिक, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं० ए-38020/11/2002-स्था०-II—सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, श्री एन० के० सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विभाग) एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 31-1-2003 (अपराह्न) से महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव का पद त्याग दिया है।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

सं० ए-38020/13/2002-स्था० II—सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, श्री एन० वी० दुआ, तकनीकी सहायक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, ने दिनांक 31-1-2003 (अपराह्न) से तकनीकी सहायक का पद त्याग दिया है।

भारत भूषण जैन, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 फरवरी 2003

सं० 2/6/99-प्रशा० I—राष्ट्रपति द्वारा श्री पी० करुणासामी जो वर्तमान में श्रम मंत्रालय में उप सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत हैं, को 3 फरवरी, 2003 के पूर्वाह्न से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) (श्री एम० कण्णप्पन) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति राज्य मंत्री (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) के निजी सचिव के रूप में निर्धारित अवधि के लिए अर्थात् उनकी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक वे राज्य मंत्री (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं करते अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

3. श्री पी० करुणासामी ने दिनांक 03-02-2003 (पूर्वाह्न) से राज्य मंत्री (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) के निजी सचिव का पदभार संभाल लिया है।

एम० जे० जॉन, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 फरवरी 2003

सं० ए-19011/6/2001-प्रशासन-1—राष्ट्रपति श्री बालेश्वर राय, आई० ए० एस० (एजीएमयू: 70) को 04 फरवरी, 2003 को पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक श्रम मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० सी० मिस्तल, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 25th January 2003

No. A-36011/39/01-Admn.—The President is pleased to appoint Dr. Zile Ram as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat, with effect from the afternoon of 24th January, 2003.

R. S. RANA, Under Secy. (Admr.)

The 6th February 2003

No. A-34011/2/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Raj Kumar, Section Officer, as Under Secretary in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 6th February, 2003 on ad-hoc basis.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th February 2003

No. RS/1275/Estt.(P).—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement, Shri V. Chinthamani, Chief Parliamentary Reporter in Rajya Sabha Secretariat, retired from service with effect from the forenoon of the 7th February, 2003.

VANAJA N. SARNA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 10th February 2003

No. 3/1(1)2003-1.—The President is pleased to extend the services of Shri R. V. Perumal, Project Director, GSLV, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram for a period of 2 years w.e.f. 31-01-2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th January 2003

No. A-12022/1/2003-Adm.III.—The President is pleased to appoint Smt. Uma Bisht, Personal Assistant of CSSS cadre of Planning Commission as Private Secretary in Planning Commission on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 08-01-2003 (FN) for a period of 6 months or until regular officials are available, whichever is earlier.

The ad-hoc appointment shall not bestow on her any claim for regular appointment and the services rendered by her on ad-hoc basis shall not count for the purpose of seniority as PS of CSSS cadre and the eligibility for promotion to the next higher grade.

G. P. GROVER, Dy. Secy.

No. A-12022/1/2003-Adm.II.—The President is pleased to appoint Smt. Narbada Malik, Personal Assistant of CSSS cadre of Planning Commission as Private Secretary in Planning Commission on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 07-01-2003 (F/N) for a period of 6 months or until regular officials are available, whichever is earlier.

The ad-hoc appointment shall not bestow on her any claim for regular appointment and the services rendered by her on ad-hoc basis shall not count for the purpose of seniority as PS to CSSS cadre and the eligibility for promotion to the next higher grade.

G. P. GROVER, Dy. Secy.

The 31st January 2003

No. A-11013/51/99-Adm.III.—The President is pleased to appoint Smt. Suman Tak, an outsider as First P.A. in the personal staff of Minister of State for Planning (Smt.

Vasundhara Raje) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on provisional basis subject to her being found fit on medical grounds w.e.f. 01-01-2002 (F/N) till Minister of State for Planning desires or demits office, whichever is earlier.

G. P. GROVER, Dy. Secy.

No. A-11013/51/99-Adm.III.—Consequent upon her relinquishing the charge as Minister of State for Planning, the services of Sh. R. Manjhi, Under Secretary, Deptt. of Agriculture & Co-operation are terminated as Additional PS to the Minister (Smt. Vasundhara Raje) with effect from 29-01-2003 (A/N). He has been granted a winding up period of one month i.e. till 28th February, 2003 (A/N).

After the expiry of his winding up period Sh. A. Manjhi will report to Deptt. of Agriculture and Co-operation.

G. P. GROVER, Dy. Secy.

New Delhi, the 20th January 2003

No. A-11013/47/99-Adm.III.—Consequent on his appointment as Deputy Adviser in the Planning Commission, the President is pleased to terminate the appointment of Shri Pitam Singh from the coterminus post of Private Secretary to Member, Planning Commission (Shri Som Pal) w.e.f. 20-1-2003 (F/N).

S. A. RAHIM, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2003

No. A-31013/3/2001-Adm.II.—The President is pleased to appoint the following Senior Research Officers (GCS) of the Planning Commission in a substantive capacity in the grade of Senior Research Officer with effect from the date mentioned against each in Column 4 :—

Sl. No., Name of the officer, Designation & Date from which substantively appointed

1. Shri Amitabha Ray, SRO (Project Appraisal)—28-8-2001 (F/N).
2. Shri A. Manohar, SRO (Project Appraisal)—30-3-2002 (F/N).
3. Dr. R. P. Singh, SRO (Educational Planning)—7-6-2002 (F/N).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 5th February 2003

No. A-12022/2/2002-Adm.V.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 26th November, 2002, the term of ad-hoc appointment of Shri O. P. Chawla as Section Officer in the Planning Commission is further extended for six months w.e.f. 1-1-2003 to 30-6-2003 or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment will not bestow upon Shri Chawla any right to claim regular appointment to the Section Officers' Grade, count for seniority etc.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(DEPARTMENT OF JUSTICE)**

New Delhi-110011, the 27th January 2003

No. K. 13012/3/2002-US.H.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Tarun Chatterjee, Judge of the Calcutta High Court, to be the Chief Justice of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 31st January 2003

No. K. 11019/4/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice S. P. Shrivastava, Judge of the Allahabad High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court during the absence of Shri Justice Tarun Chatterjee, Chief Justice of the Allahabad High Court, on leave with effect from February 1 to 14, 2003 (both days inclusive).

K. GURTU, Director (Justice)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 30th January 2003

No. 14016/62/2001-UTS-II.—On his allocation for appointment to the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service on the basis of the Civil Services Examination, 2000, the Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has appointed Shri Sravan Bagaria to Grade-II Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service in the scale of pay of Rs. 6,500—10,200/- on probation for a period of two years, with effect from the forenoon of 9th August, 2002 under Rule 7(2)(a), read with Rule 10 of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service Rules, 1996.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi-1, the 6th February 2003

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri R. P. Rai, Indian Administrative Service Officer of 1967 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st January, 2003.

K. K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the 4th February 2003

No. I-14012/11/2001-IPS-IV.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Rajib Jain, IPS (J&K : 2000) from Indian Police Service w.e.f. 25-7-2001.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

The 10th February 2003

No. I-14012/13/2002-IPS-IV.—Under Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following candidates who competed successfully at the Civil Services (Main) Examination, 2001, to the Indian Police Service (on probation) with effect from the dates mentioned against their names.

Sl. No. Name of Candidate & Date of Appointment

S/Shri

1. Abhay Singh—02-09-2002 (FN)
2. Amitendra Nath Sinha—02-09-2002 (FN)
3. Aparna H.S. (Ms.)—02-09-2002 (FN)
4. Archana Sarin (Ms.)—02-09-2002 (FN)
5. Asif Jalal—02-09-2002 (FN)
6. Bharat Lal Meena—02-09-2002 (FN)
7. Chinuolu Srikanth—02-09-2002 (FN)
8. Deepak Choudhary—02-09-2002 (FN)

Sl. No. Name of Candidate & Date of Appointment

S/Shri

9. Devendra Prakash Singh—02-09-2002 (FN)
10. Dharamvir—02-09-2002 (FN)
11. Gajulavarti Sparjan Kumar—02-09-2002 (FN)
12. Mrinalini Shrivastava (Ms.)—02-09-2002 (FN)
13. Patil Ajit Bhagwatrao—02-09-2002 (FN)
14. Rahul Sharma—02-09-2002 (FN)
15. Rajesh Kumar—02-09-2002 (FN)
16. Rakesh Rathi—02-09-2002 (FN)
17. S. Praveen Kumar—02-09-2002 (FN)
18. Santosh Kumar—02-09-2002 (FN)
19. Shachi Ghildyal (Ms.)—02-09-2002 (FN)
20. Sonia Narang (Ms.)—02-09-2002 (FN)
21. Subramanyeswara Rao A—02-09-2002 (F/N)
22. Uttam Chand—02-09-2002 (FN)
23. Saratkar Kapilkumar Chindurao—03-09-2002 (FN)
24. Saket Kumar Singh—06-09-2002 (FN)
25. Sanjay Kumar Jain—23-12-2002 (FN)
26. Harshita Attaluri (Ms.)—23-12-2002 (FN)
27. Shisve Ravindra Anant—23-12-2002 (FN)
28. Jose Mohan—23-12-2002 (FN)
29. Saurabh Rao—23-12-2002 (FN)
30. Rajat Agarwal—23-12-2002 (FN)
31. Narasingha Bhol—23-12-2002 (FN)
32. N. Kannan—23-12-2002 (FN)
33. Rajesh Kumar Yadav (Rank No. 245)—23-12-2002 (FN)
34. Gajbhiye Satisbkumar Ishwards—23-12-2002 (FN)

2. The appointment of these candidates to Indian Police Service is provisional and subject to terms and conditions as stipulated in the appointment letters.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 5th February 2003

No. A-19011/1/2002-ISC.—The President is pleased to appoint Shri Devdas Chhotray, IAS (BH : 71), as Adviser, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the afternoon of 3rd February, 2003 and until further orders.

P. B. RAJAPPAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 7th November 2002

No. F.2/27/2001-DONER.—In pursuance of the O.M. No. 4/13/2001-CS-1 dated 12th August 2002 and select list for 1991, 1992, 1993 and 1994 issued by Department of Personnel & Training the date of actual appointment of Shri T.K. Murugan in the grade of CSS Grade I (Under Secretary) on regular basis is effective w.e.f. 1-7-92 instead of 17-5-93.

P. K. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th February 2003

No. 22012/44/2001AIS(I)-A.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2000 Select List containing the name of Shri K. S. Premchandra Kurup (D. O. B. : 30-09-1948) a member of the Non-State Civil Service of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meeting held on 13-12-2002, towards filling up one existing vacancy in the Indian Administrative Service, Kerala Cadre, during the year 2000.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. 22012/44/2001-AIS(I)-A.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the 2001 Select List containing the name of Sri N. Ayyappan (SC) (D.O.B. : 23-03-1948), a member of the Non-State Civil Service of the State of Kerala prepared by the Selection Committee in its meeting held on 13-12-2002, towards filling up one existing vacancy in the Indian Administrative Service, Kerala Cadre, during the year 2001.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

No. 22012/44/2001-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri K. S. Premchandra Kurup and N. Ayyappan, non-State Civil Service officers of Kerala to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Kerala Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

Y. P. DHINGRA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 9th January 2003

No. of 2002 (F. No. A-19013/13/2002-Ad.IA.).—In pursuance of the Cadre Administration Section O. Ms. No. A-32022/2/99-CAS dated 8-7-2002 & 2-1-2003, the President is pleased to continue the ad-hoc promotion of Shri Vijay Kumar as Senior Principal Private Secretary upto 30-6-2003 or till a regular Senior Principal Private Secretary becomes available or till further orders whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of the Shri Vijay Kumar to the post of Senior Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of Senior PPS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

The 15th January 2003

No. 3 of 2002 F. No. A-32014/1/2002/Ad.IA.—In pursuance of the Department of Personnel and Training O. M. No. 5/5/2001-CS-II dated 10-12-2002, the President is pleased to appoint the following officials of the Central Secretariat Stenographers Service to Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS on regular basis with effect from 31st December, 2002 in the pay scale of

Rs. 10000-325-15200/- in the Ministry of Finance, Department of Revenue :—

S. No., Name

(S/Shri/Ms.)

1. B. S. Kaushik
2. Sunita Saxena
3. Pritam Chand
4. P. N. Bajaj
5. Jayashree Sivaraman
6. O. P. Chauhan
7. Janaki Venkateshwaran

2. The order of seniority of the above-mentioned officers in the grade of Private Secretary of Central Secretariat Stenographers' Service will follow the serial order indicated in the list enclosed with the Department of Personnel and Trainings' Office Memorandum dated 10-12-2002 irrespective of actual dates of appointment to the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary).

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 28th January 2003

No. 7 (F. No. A-19014/1/2003-Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Raju P. Amlani, an officer of Enforcement Directorate, New Delhi as Junior Analyst (Technical Coordination) on deputation basis for a period of three years, with effect from 23-1-2003 (A/N) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 24th January 2003

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. A-38012/7/2002-Ad.II.—The President is pleased to accept the voluntary retirement of Shri K. S. Venkagiri, Commissioner of Central Excise, Salem from the Indian Customs & Central Excise Service, Group "A" w.e.f. 14-12-2002 (A/N).

K. KIPGEN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 1st October 2002

No. 1/10/2000-Cy.III.—The President is pleased to appoint Shri N. J. Sunny, Deputy Chief Engineer in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Chief Engineer (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- purely on adhoc basis in the same cadre, as Chief Engineer on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 1st August, 2002 and until further orders.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

No. 1/11/2001-Cy.III.—The President is pleased to appoint S/Shri S. K. Ghosh and M. C. Bylappa, both Deputy Works Manager of the combined cadre of India Security Press Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Works Manager (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 purely on adhoc basis in the same cadre, as Works Manager on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 1st August, 2002 and until further orders.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

No. 1/13/2001-Cy.III.—The President is pleased to appoint S/Shri M. Radhakrishnan, P. S. Ughade, Manish Shankar, V. B. Deshpande and C. R. Karnik, all Asstt. Works Manager of the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Dy. Works Manager (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 purely on adhoc basis in the same cadre, as Deputy Works Manager on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 16th August, 2002 and until further orders.

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

The 9th December 2002

No. 1/9.99-Cy.III.—The President is pleased to appoint the following Supervisors of the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road and presently working as Asstt. Works Manager (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- purely on adhoc basis in the same cadre, as Asstt. Works Manager on regular basis in the combined cadre of India Security Press/Currency Note Press, Nashik Road, with effect from forenoon of 18th October, 2002 and until further orders :—

1. Shri S. G. Barde
2. Shri S. M. Pandit
3. Shri A. K. Srivastava
4. Shri V. G. Maru (SC)
5. Shri R. B. Shirwadkar
6. Shri B. T. Kukreja
7. Shri J. K. Jain

Dr. (Ms.) PRAFULLA KERKETTA, Dy. Secy.

New Delhi, the 17th January 2003

No. A. 19011/13/2002-Admn.II.—The President is pleased to appoint Ms. Sreyasi Chaudhuri, Section Officer in Department of Development of North Eastern Region to officiate as Under Secretary on ad hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Company Affairs in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 with effect from the forenoon of December 10, 2002 and until further orders.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 22nd January 2003

No. A. 12011/2/2002-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Singh, IRS (IT : 92) as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance & Company Affairs, with effect from the forenoon of 22nd January, 2003 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 21st January 2003

No. 4/12/2002-Cy.II(BNP).—The President is pleased to appoint Shri K. K. Garg, Asstt. Engineer (Civil), to the post of Engineer (Civil) in the scale of pay of Rs. 8000—15,000/- (revised) in the Bank Note Press, Dewas, wef 1-1-2003 (forenoon), on ad-hoc basis for a period of one year or until the post is filled up on regular basis whichever is earlier.

R. K. MAGGO, Under Secy.

New Delhi, the 6th February 2003.

No. 2/10/1998-Coin.I.—The President is pleased to appoint Shri Ajai Kumar Srivastav, Works Manager, India Government Mint, Noida and Shri C. Kalyan Ram, Works Manager, India Government Mint, Mumbai as Senior Works Manager of IGM Noida & Mumbai respectively in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- w.e.f. 04-02-2003 (F/N) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

No. 2/13/2001-Coin.I.—The President is pleased to appoint Shri D. K. Dhillon, Selection Grade Engineer/Melter of India Government Mint, Noida as Assistant Works Manager of IGM Noida in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 31-1-2003 (F/N) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 10th January 2003

No. A-22013/1/2001-Cadre.—in pursuance of Rotation Policy of CSS officers of Under Secretary level as contained in DoP&T's O. M. No. 31/7/2002-EO (MM-I) dated 9th December, 2002, Shri B. Singh, Under Secretary in Department of Legal Affairs has assumed the charge of his duties in Department of Commerce (Supply Division) w.e.f. the afternoon of 31st December, 2002.

S. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 14th January 2003

No. A-19011/5/2001-Estt.—The President is pleased to further extend the ad-hoc appointment of Shri Chander Gupta as Senior Principal Private Secretary borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 12,000—16,500/- on ad-hoc basis upto 30-6-2003 or till regular officer becomes available whichever is earlier. This appointment is in terms of DOP&T's O.M. No. 20/27/98-CS. II (Vol.II) dated 19th December, 2002.

2. The appointment of Shri Chander Gupta is being made purely on ad-hoc basis and this ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right for regular appointment or seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

S. S. KEMWAL, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 9th January 2003

No. A-19011/13/97-Admn.—The President is pleased to extend the tenure of Shri B. K. Tripathi, (JH : 83), Director in the Department of Heavy Industry for a period of one month beyond 7-01-2003 i.e. upto 7-2-2003 or until further orders.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 14th January 2003

No. A-12026/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Wadhawan, holding the post of Under-Secretary (in-situ) in the cadre of Department of Administrative Reforms and Public Grievances, as Under Secretary in Department of Heavy Industry with effect from the afternoon of 3rd January, 2003 until further orders.

K. K. SHARMA, Under Secy.

The 15th January 2003

No. A-19011/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri A. Didar Singh, IAS (PB : 76) as Joint Secy. in the Department of Heavy Industry, in the pay scale of Rs. 18400-22400/- for a period of five years with effect from the forenoon of 15-1-2003 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 31st January 2003

No. A-18011/12/2003-Estt.—The President is pleased to permit Shri Jagjit Singh, Private Secretary (Grade 'A' and 'B' merged) in the CSSS cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, presently working in the Ministry of Small Scale Industries & Ministry of Agro Rural Industries to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31-1-2003 on his attaining the age of superannuation.

H. R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 6th February 2003

No. A-11011/1/2001-E.I.—The President is pleased to appoint Shri J. P. Balooni, as Assistant Director (Official Language) on regular basis in the Department of Food and Public Distribution with effect from 13th December, 2002.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 24th January 2003

No. A.12023/02/98-Admn.I(A).—Consequent on relinquishment of charge of the post of OSD in the office of Solicitor General, Department of Legal Affairs, with effect from 3-11-2002 forenoon and expiry of earned leave on 31-12-2002 sanctioned by the Department of Legal Affairs, Shri R. Mani, PPS (In-situ) has joined DST on 1-1-2003 and he has been taken on the strength of CSSS Cadre of Science & Technology with effect from 1-1-2003.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

The 28th January 2003

No. A.32013/3/2001-Admn.I(A).—In continuation of this Department's notification of even number dated 14-11-2002, the President is pleased to extend the term of the following Junior Analysts as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 for another six months wef 14-12-2002

to 13-6-2003 or till regular incumbent joins duty, whichever is earlier.

- 1 Sh. A. N. Singh
2. Sh. Rajiv Khanna

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 24th January 2003

F. No. 17013/10/2002-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 22nd January, 2003 has approved the Select List for the year 2001 & 2002 containing the names of following twenty members of State Forest Service Officer of Madhya Pradesh, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 12th & 13th December, 2002 for filling up promotion vacancies in the Madhya Pradesh cadre of the Indian Forest Service as on 1st January, 2001 & 1st January, 2002 :

Select List of 2001 :

Sl. No., Name & Date of Birth

(S/Shri)

1. A. K. Bhugaonkar (ST)—17-09-1956
2. V. K. Nema—01-07-1958
3. A. K. Nagar—15-12-1958
4. M. K. Pathak—06-03-1959
5. Shant Kumar Sharma—15-06-1955
6. M. C. Singhal—01-03-1957
7. R. P. S. Baghel—25-07-1958
8. Udham Singh Keer (ST)—01-04-1952
9. N. Qureshi—01-06-1955
10. L. P. Tiwari—27-11-1954
11. B. S. Lit—08-04-1948

Select List of 2002 :

Sl. No., Name & Date of Birth.

(S/Shri)

1. Raghvendra Kumar Shrivastava—09-03-1959
2. Ashok Kumar Joshi—01-03-1960
3. Atul Khara—30-04-1960
4. Kallu Singh Alawa (ST)—01-01-1958
5. Sarpat Singh Rawat (ST)—30-08-1960
6. Tarun Sekhar Chaturvedi—21-07-1958
7. Gyan Prakash Shrivastava—07-01-1949
8. D. K. Agrawal—09-05-1958
9. A. S. Tiwari—09-12-1959.

G. DEVNANI, Under Secy.

The 27th January 2003

F. No. 17013/03/97-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (4) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect Shri T. N. Verma of the State Forest Service of Bihar, to the Indian Forest Service on the basis of the Select List for 1996-97 and to allocate him to the Bihar Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

G. DEVNANI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 27th January 2003

No. A-32012/3/2002-P.I.—With the approval of the competent authority, the following Research Officers in the scale of pay of Rs. 6500—10500/- are hereby appointed as Scientist 'B' in the pay scale of Rs. 8000—13,500/- on regular basis w.e.f. 20-11-2002 (F/N) :—

- (i) Dr. P. S. Rawat.
- (ii) Shri Om Prakash.

P. MOHANDASAN, Under Secy.

New Delhi-110003, the 27th January 2003

File No. 24012/1/99-IFS.II.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. N. Udai Sekhar, an Indian Forest Service Officer of 1987 batch, borne on the Rajasthan cadre, from the Service with immediate effect.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 4th February 2003

No. A.12034/2/2003-CHS.III.—The President announces with deep regret the sad demise on 29-11-2002 of Dr. Shashi Bhardwaj, an officer of the Specialist Grade II of Central Health Service and was holding the post of Professor Anatomy, MAMC, New Delhi.

(Smt.) PERIN DEVI, Under Secy.

New Delhi-110011, the 5th February 2003

No. A. 39012/21/95-CHS.I.—Consequent upon acceptance of her resignation Dr. (Mrs.) Harpreet Kaur, Senior Medical Officer is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of the Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 3-9-2001.

The period from 1-11-1990 till 3-9-2001 (F/N) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/159/96-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anshuman Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 30-6-1997 until further orders. Dr. Anshuman Kumar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 39012/2/2001-CHS.I.—Consequent upon acceptance of his resignation Dr. R. K. Pruthi, is deemed to have relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer of the Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi on the forenoon of 5-12-2001.

The period from 3-9-1997 till 5-12-2001 (F/N) has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 6th February 2003

No. A. 32012/2/2002-CHS.I.—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the Charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No., Name of the Officer, Organisation, Date of Relinquishment of charge as SMO & Date of Assumption of charge as CMO

1. Dr. Shyam Sunder, GOI Press, New Delhi, 5-6-99 (F/N) 5-6-99 (F/N).
2. Dr. (Mrs.) Parveen Bala, GNCT Delhi, 09-08-01 (F/N) 09-08-01 (F/N).
3. Dr. (Ms.) Padma Ponnuru, GNCT Delhi, 21-10-01 (A/N) 22-10-01 (F/N).
4. Dr. (Mrs.) Monika Rana, GNCT Delhi, 8-8-01 (A/N) 9-8-01 (F/N).
5. Dr. (Mrs.) Leena Mishra, GNCT Delhi, 11-7-01 (F/N), 11-7-01 (F/N).
6. Dr. (Mrs.) Vishakha Sahare nee Siddiqui, GNCT Delhi, 4-9-01 (F/N) 4-9-01 (F/N).
7. Dr. (Mrs.) Sangeeta Rani, GNCT Delhi, 11-7-01 (F/N) 11-7-01 (F/N).
8. Dr. Babita Mittal, GNCT Delhi, 9-8-01 (F/N) 9-8-01 (F/N).
9. Dr. Parminder Kaur, GNCT Delhi, 4-9-01 (F/N) 4-9-01 (F/N).
10. Dr. Alka Aggarwal, GNCT Delhi, 9-8-01 (F/N) 9-8-01 (F/N).
11. Dr. Kamaljeet Singh Bansal, GNCT Delhi, 4-8-97 (F/N) 4-8-97 (F/N).

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th January 2003

No. 12022/6/96-E.I.—The President is pleased to appoint the following Grade 'A' & 'B' (Merged) officers of Central Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary) borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation as Principal Private Secretaries on regular basis with effect from 10-12-2002 (F/N) :—

Sl. No., Name of the Officer, Year of Select List Seniority assigned in the Grade

1. Smt. Alpana Das Gupta, 1998—23.
2. Shri K. Mohanan, 1998—25.
3. Shri Sohan Swarup, 1998—42.
4. Shri J. N. Banati, 1998—48.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 14th January 2003

No. 27-2511/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sudeep Kumar Banerjee, IAS (MP : 71) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 14th January, 2003, until further orders.

K. D. UPRETI, Under Secy.

The 31st January 2003

No. 38012/5/2002-E.I.—The President is pleased to retire Shri Subhash Chander, Senior Principal Private Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation, from Government service with effect from the afternoon of 31st January, 2003, on attaining the age of superannuation.

K. D. UPRETI, Under Secy.

**DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES NAUTICAL &
ENGINEERING TRAINING**

Cochin-682016, the 7th February 2003

PF No. 539/Adm.—The undersigned is pleased to appoint Shri K. Viswanathan to the post of Hindi Officer Group 'B' Gazetted in Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 31-01-2003. (Forenoon) until further orders.

G. H. MANIKFAN, Director

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 9th January 2003

No. A-32011/4/2001-E.I.—The Secretary, Department of Secondary & Higher Education is pleased to appoint Shri B. S. Bahl, a regular Statistical Investigator Grade-I as Assistant Education Officer (Statistics) in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 30-12-2002 until further orders.

B. M. SADDI, Under Secy.

The 10th January 2003

No. A. 32011/11/98-E.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/5/2001-CS.II dated 10-12-2002, the President is pleased to appoint Shri B. K. Sharma as Principal Private Secretary in the Department of Women and Child Development on regular basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200, vide their Office Order No. 5/12/2001-OL(S) dated 8th January 2003, with immediate effect.

B. M. SADDI, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi, the 17th January 2003

No. A-12026/2/95-Estt.—Consequent upon the selection by the Departmental Promotion Committee, the Department of Official Language has promoted and appointed Shri P. D. Bhardwaj, Deputy Director (OL) in this Ministry in the pay scale of Rs. 10000-325-15200, vide their Office Order No. 5/12/2001-OL(S) dated 8th January 2003, with immediate effect.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 28th January 2003

No. A-32014/1/99-Estt.—The President is pleased to appoint the following substantive Assistants of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment to the Section Officer's Grade of the Cadre in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, on purely adhoc basis for the period as mentioned against each.

(a) Shri B. K. Mishra w.e.f. 12-03-2000 till 26-07-2000

(b) Shri Y. S. Yadav w.e.f. 13-05-2000 till 28-09-2000

(c) Shri A. K. Das w.e.f. 31-03-2001 till 02-05-2001

2. This adhoc officiation will not confer on them any right or claim for regular appointment to the Section Officer's Grade or to the seniority of that grade.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-32014/1/99-Estt.—The President is pleased to appoint the following substantive Assistants of the Central Secretariat Service Cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment to the Section Officer's Grade of the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, on purely adhoc basis for the period as mentioned against each or till such time a regular/Select List Officer becomes available, whichever is earlier.

(a) Shri S. Ravi Kumar w.e.f. 02-06-2000 till 29-11-2002.

(b) Shri B. K. Mishra w.e.f. 27-07-2000 till 31-03-2003.

(c) Shri Y. S. Yadav w.e.f. 29-09-2000 till 31-03-2003.

(d) Shri A. K. Das w.e.f. 03-05-2001 till 14-07-2002.

2. This adhoc officiation will not confer on them any right or claim for regular appointment to the Section Officer's Grade or to the seniority of that grade.

3. This is in accordance with the ex-post facto approval of continuation of adhoc officiation of these officers by the Department of Personnel and Training conveyed vide OM No. 5/18/2002-CS.I dated 03-01-2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 23rd January 2003

No. 17016/5/2002-SCD-VI.—The President is pleased to appoint Shri Babu Lal, CSS as Director in the National Commission for SCs and STs w.e.f. 16-1-2003 (FN) for the period upto 31-5-2005.

DILIP SINGH, Dir.

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)**

New Delhi-110001, the 27th December 2002

No. PF-2415/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Sharma, Private Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2002.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.
(Admn.I)

No. PF-2678-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Sikri, Private Secretary (1st PA to Hon'ble MOC & IT), Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December 2002.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.
(Admn.I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 31st January 2003

No. 1-32/2000-SPG.—Shri A.S.I.S. Paul (Indian Postal Service-1966), Member (Personnel) will be retiring from Govt. service w.e.f. 31-01-2003 (A/N) on attaining the age of superannuation.

R. S. YADAV, Asstt. Dir. Genl.

No. 1-20/2002-SPG.—Shri T. R. Sharma (Indian Postal Service-1967), Member (I & FS) will be retiring from Govt. service w.e.f. 31-01-2003 (A/N) on attaining the age of superannuation.

R. S. YADAV, Asstt. Dir. Genl.

New Delhi-110001, the 4th February 2003

No. 3-4/99-Admn.—Consequent on her inclusion in the Select List of Grade 'A & B' (merged) of CSSS for the Select List Year 1999, the President is pleased to appoint Smt. Madhavani Audbhaski, a regular Stenographer Grade "C" of the CSSS cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, as Private Secretary in the CSSS cadre of the Department of Posts on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 31-01-2003 (A/N) and until further orders.

G. P. PILLAI, Asst. Dir. Genl.
(Admn.)

The 5th February 2003

No. 2-2/2000-Admn.—Consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2000 (Seniority Quota), the President is pleased to appoint Shri A.K. Ghosh, a regular Assistant in the cadre of Department of Legal Affairs as Section Officer in the CSS cadre of the Department of Posts, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on regular basis with effect from 03-02-2003 and until further orders.

G. P. PILLAI, Asst. Dir. Genl.
(Admn.)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 3rd February 2003

No. A-32014/1/96-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Maha Singh, Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Road Transport & Highways as Section Officer on an ad-hoc basis w.e.f. 31-1-2003 (A/N) for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

The above mentioned ad-hoc appointment do not confer on Shri Maha Singh any right for seniority or regular appointment in the grade of Section Officer (CSS).

N. C. KAUSHIK, Under Secy.

New Delhi, the 3rd February 2003

No. A-38020/11/2002-E.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri N. K. Sinha, Director General

(Road Development) & Special Secretary, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi relinquished the charge of the post of Director General (Road Development) & Special Secretary w.e.f. 31-01-2003 (A/N).

B. B. JAIN, Under Secy.

No. A-38020/13/2002-E.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri N. D. Dua, Technical Assistant in the Ministry of Road Transport & Highways relinquished the charge of the post w.e.f. 31-1-2003.

B. B. JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-110 003, the 6th February 2003

No. 2/6/99-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri P. Karupasamy (CSS) presently working as Deputy Secretary (in-situ) in the Ministry of Labour as Private Secretary to the Minister of State (Independent charge) (Non-Conventional Energy sources) (Shri M. Kannappan) w.e.f. the forenoon of 3rd February, 2003.

2. The appointment would be for prescribed tenure as Private Secretary to MOS (NES) for a period of three years from the date of his appointment or until he ceases to function as Private Secretary to MOS (NES) or until further orders whichever event occurs the earliest.

3. Shri P. Karupasamy assumed charge of the post of Private Secretary to the MOS (NES) w.e.f. 3-2-2003 (F/N).

M. J. JOHN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 5th February 2003

No. A-19011/6/2002-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Baleshwar Rai, IAS (AGMU : 78) as Additional Secretary in the Ministry of Labour w.e.f. the forenoon of 4th February 2003 until further orders.

M. C. MITAL, Dy. Secy.

प्रकाशक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन निबंधक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003